



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2012/पौष 27, 1933

No. 65]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2012/PAUSA 27, 1933

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2012

का.आ. 74(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 785(अ) तारीख 25-4-2011 द्वारा उस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा करल गज्य में कोच्चि-कूटनाट-मैंगलूर-बैंगलूर पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत अस्वीकृत कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह सतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का निर्णय किया है;

अतः, अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐस उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहने हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पालक्काट	ओटापाल	चालिशोरि	275/1	0	06	51
			275/3	0	02	03
			275/2	0	10	80
			311	0	28	32
			310/1	0	17	40
			309/4	0	11	14
			309/3	0	00	62
			309/1	0	00	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			307/1	0	06	95				64/3A	0	00	52
			308/2	0	15	48				64/2	0	01	47
			308/3	0	00	04				61	0	11	92
			297/9	0	00	25				60/1	0	12	68
			308/4	0	15	12				60/3	0	10	51
			297/4	0	00	84				39/3	0	20	13
			298/3	0	01	23				39/2	0	14	00
			298/5	0	05	51				40/1	0	05	40
			298/4	0	11	18				37/2	0	15	84
			298/2	0	07	74				37/1	0	04	39
			298/1	0	15	98				37/3	0	00	99
			294/3	0	04	26				36/1	0	14	40
			294/2A	0	01	67				36/2	0	10	23
			294/2B	0	15	26				12/1	0	02	33
			294/1	0	17	52				12/2	0	19	88
			295/7	0	02	40				11/2	0	34	81
			293/2A	0	01	21				11/1	0	04	71
			286	0	01	70				7/7	0	00	76
			288	0	01	25				7/5	0	07	44
			287/2B	0	07	07				7/4	0	03	27
			287/2A	0	13	74				7/3	0	11	10
			241	0	85	70				6/4	0	08	19
			242/1B	0	09	87				6/3	0	03	09
			242/1A	0	13	02				5	0	03	62
			243/2B	0	10	77				4/3A	0	01	36
			243/2A	0	05	84				4/3C	0	08	76
			243/3A	0	00	04				4/3B	0	07	53
			93	0	78	86				4/4	0	01	51
			92/10	0	16	67				1/2	0	03	86
			92/9	0	13	65				1/1A	0	04	18
			84	0	07	05				कुल	8	05	28
			89/7	0	02	17				167/1A	0	25	59
			89/5	0	01	24				167/2	0	00	95
			89/6	0	11	19				166/3B	0	05	00
			89/2	0	13	42				166/4	0	01	54
			89/3	0	00	21				166/3A	0	03	60
			88/4	0	04	32				166/2B	0	05	09
			88/3	0	11	17				166/2A	0	01	76
			87	0	00	18				166/1	0	13	97
			69/5	0	01	76				79/10	0	10	00
			69/4	0	02	60				52	0	16	02
			69/3	0	00	88				53/3	0	04	79
			69P	0	15	83				53/2	0	03	68
			64/4	0	01	52				51/3	0	06	79
			64/5	0	04	28				51/2	0	05	31
			64/3	0	20	93				51/1	0	04	76
										कुल	1	08	85

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	नागलसेरि	11/4	0	20	35				253/3	0	13	15	
		12/1	0	07	58				253/5	0	01	10	
		12/3A	0	18	55				287/1	0	07	24	
		12/3B	0	08	65				287/3	0	11	12	
		13/1A	0	07	31				288/2	0	27	59	
		13/1B	0	00	51				248	0	00	15	
		13/2	0	00	59				288/4	0	04	78	
		13/4A	0	00	42				288/3	0	17	31	
		13/4B	0	00	29				291P	0	01	49	
		10/2A	0	01	00				290/1	0	00	72	
		10/2B	0	01	74				290/2	0	32	38	
		17/1	0	01	06				292/1	0	16	93	
		17/2A	0	03	73				331/1	0	42	38	
		17/2B	0	13	72				331/2A	0	00	57	
		18	0	02	65				331/2B	0	00	02	
		7/1B	0	04	76				332/1	0	00	01	
		7/1A	0	00	06				327/3	0	04	37	
		7/2B	0	13	10				327/4	0	00	01	
		8/4B2	0	08	28				336/1	0	29	92	
		8/4A2	0	17	62				336/2B	0	04	80	
		3/8	0	01	68				336/2A	0	24	02	
		3/7	0	00	02				325/4	0	00	71	
		4/3	0	08	01				325/5	0	08	35	
		4/2A	0	27	36				341/1	0	08	27	
		2/2B	0	16	67				341/4	0	14	27	
		270/1A1	0	01	51				341/2	0	11	77	
		1/2B	0	30	54				342/2	0	07	84	
		1/2A	0	02	40				342/3	0	09	87	
		275/4B	0	15	45				340/1	0	00	57	
		275/5B	0	07	22				349/1	0	19	41	
		275//5B	0	00	01				348/2	0	30	85	
		278/5B	0	07	27				350/1	0	05	88	
		279/1	0	22	12				415	0	00	85	
		279/3	0	00	30				414/1	0	00	21	
		279/4	0	00	01				414/2	0	01	91	
		255/1A	0	01	13				414/3	0	16	75	
		255/4	0	13	31				410/1A	0	09	78	
		255/3	0	06	21				411/2	0	11	46	
		255/6	0	07	23				410/1B	0	09	60	
		254/4	0	07	72				405/1	0	16	88	
		254/5	0	07	93				405/3	0	20	56	
		254/2	0	02	75				408/7	0	12	56	
		254/1	0	01	24				408 6	0	00	24	
		253/1	0	09	24				408 9	0	11	01	
		253/2	0	11	22				387/5	0	05	67	
		253/4	0	00	86				387/6	0	02	13	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			387/4	0	18	76				275/5	0	00	38
			388/2	0	09	42				277/1	0	15	38
			388/1	0	07	17				277/2	0	00	80
			कुल	8	54	19				277/3	0	03	18
	पट्टिन्तरा		96/5	0	06	32				336/1	0	00	88
	(मला)		96/4	0	14	69				336/3	0	11	57
			98/3	0	10	88				336/4	0	15	52
			98/1	0	14	89				335/2	0	11	41
			102/3	0	04	65				336/5	0	00	01
			102/2	0	22	84				336/6	0	12	55
			101/2	0	02	52				334/6	0	17	01
			101/4	0	03	61				339/2A	0	06	12
			101/3	0	11	37				333/1	0	21	83
			101/5	0	04	58				333/2	0	05	16
			100/5	0	03	04				333/3	0	06	66
			100/6	0	04	41				329/2B	0	11	47
			104/5	0	03	13				329/3	0	17	55
			104/1	0	05	96				329/4	0	00	70
			104/3	0	21	48				330/1	0	00	79
			352/1	0	12	48				330/2	0	11	76
			107/6	0	00	55				330/3	0	03	20
			107/5	0	01	81				328/2	0	00	50
			107/4	0	10	87				326/1A	0	12	60
			107/2	0	00	61				326/1B	0	10	90
			107/3	0	06	34				325/3	0	14	62
			351/2	0	04	08				325/7	0	09	17
			351/3	0	06	89				325/8	0	05	91
			351/4	0	07	88				324/9	0	19	42
			351/6	0	10	45				403/4	0	01	97
			350/1	0	22	15				403/3	0	12	50
			270/7	0	07	06				403/2	0	07	80
			270/9	0	08	47				403/1	0	01	37
			270/8	0	03	92				323/5	0	09	30
			271/2	0	07	83				323/4	0	20	61
			271/1	0	18	50				322/4	0	04	89
			273/3	0	17	68				322/3	0	06	33
			273/1	0	03	83				322/2	0	13	85
			273/2	0	09	80				322/1	0	01	83
			273/5	0	00	06				317/2	0	18	09
			273/6	0	05	43				316/5	0	13	40
			275/1A	0	06	08				409/2	0	12	38
			275/1B	0	15	80				316/4	0	00	04
			275/4	0	02	28				409/1	0	23	75
			276/7	0	01	80				409/4	0	01	74
			276/8	0	09	46				408/1	0	03	91
			275/5	0	01	07				413/4	0	01	21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			413/1	0 01 04				22\5	0 04 49
			413/3	0 27 70				22\6	0 01 84
			413/2	0 13 51				22\7	0 05 65
			413/5	0 04 72				23\4	0 05 14
			416/1	0 05 52				23\5	0 07 32
			416/2	0 10 39				23\3	0 00 83
			416/3	0 01 51				23\7	0 01 11
			416/4	0 15 54				23\8	0 03 14
			421/1	0 09 01				23\1	0 03 98
			421/3	0 06 18				23\10	0 01 38
			421/2	0 03 62				23\9	0 04 14
			421/4	0 16 84				41/2	0 04 10
			422/2	0 04 11				41/4	0 02 04
			422/1	0 04 13				41/3	0 00 33
			422/3	0 12 08				41/7	0 00 36
			422/5	0 02 07				41/8	0 00 42
			423/8	0 00 06				41/9	0 00 59
			कुल	8 75 60				41/6	0 11 20
निरुमितकोट			15\3	0 06 22				42/3	0 00 28
			15\4	0 08 49				42/2	0 02 22
			15\8	0 00 05				42/5	0 19 66
			15\9	0 02 81				42/6	0 11 83
			16\4	0 02 52				42/7	0 06 46
			16\5	0 06 09				42/8	0 05 75
			16\1	0 00 01				44/1	0 05 28
			16\7	0 08 94				44/2	0 04 41
			16\10	0 03 22				44/3	0 11 06
			16\8	0 06 36				44/4	0 03 17
			16\9	0 04 14				44/5	0 04 67
			18\4	0 01 41				62/4	0 04 49
			20\1	0 06 59				62/3	0 04 17
			20\2	0 08 38				62/5	0 00 85
			20\3	0 08 36				62/8	0 02 48
			20\4	0 15 62				62/7	0 02 24
			21\1	0 03 79				62/9	0 04 00
			21\2	0 08 84				62/10	0 00 14
			21\3	0 05 18				62/12	0 05 26
			21\8	0 00 48				62/13	0 02 62
			21\4	0 05 59				62/15	0 08 30
			21\5	0 07 16				62/16	0 05 79
			22\1	0 01 58				63/8	0 01 98
			22\2	0 04 45				63/9	0 00 27
			22/3A	0 11 03				63/7	0 02 87
			22/3B	0 00 35				63/6	0 01 80
			22\4	0 10 36				63/4	0 01 91

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			63/3	0 01 94				152	0 03 41	
			61/4	0 08 51				153/4	0 06 83	
			61/5	0 16 24				153/5	0 00 43	
			60	0 36 38				154/1	0 00 52	
			59/9A	0 00 03				153/6	0 16 63	
			59/9B	0 07 63				154/4	0 07 41	
			59/5	0 13 24				154/3	0 06 57	
			59/4	0 03 06				155/2	0 03 30	
			59/2	0 06 65				154/2A	0 11 86	
			58/9	0 04 93				191/6B	0 03 91	
			146/1	0 02 63				191/7	0 24 16	
			146/9	0 10 29				191/10A	0 03 04	
			146/7	0 00 65				192/2A	0 02 61	
			146/6	0 09 64				192/2B	0 01 80	
			145/9	0 01 58				192/2C	0 16 38	
			145/8	0 03 62				192/1	0 01 98	
			145/7	0 00 10				192/4	0 13 13	
			145/2	0 02 95				193/3A	0 04 07	
			145/3	0 16 62				193/3B	0 02 38	
			145/5	0 09 53				193/4A	0 10 86	
			144/1	0 16 57				193/1B	0 01 27	
			144/3	0 02 60				193/6A	0 00 42	
			144/4	0 05 11				193/7B	0 02 51	
			144/5	0 10 73				194/8A	0 00 57	
			144/8	0 00 57				194/8B	0 05 57	
			144/9	0 04 25				194/9B	0 17 49	
			144/12	0 08 24				कुल	8 44 47	
			143/3	0 03 03				वृन्ताला	212/3A	0 05 03
			143/2	0 16 35				(मेलातूर)	212/3B	0 13 69
			143/6	0 00 06					228/1B	0 01 48
			143/8	0 01 27					228/1A	0 16 04
			142/8	0 03 63					229/1A	0 05 49
			142/9	0 11 04					229/3A	0 05 25
			142/10	0 24 97					229/4A	0 02 75
			140/4	0 05 57					229/7A	0 09 67
			140/5	0 12 42					235/2A	0 11 97
			140/6	0 09 54					235/3A	0 11 95
			140/10	0 06 43					236/1A	0 20 87
			138/2	0 01 37					236/2	0 10 14
			138/1	0 05 76					233/1	0 00 85
			138/3	0 10 05					237/6	0 00 25
			138/4	0 11 35				कुल	1 15 43	
			139/4	0 02 68						
			139/3	0 15 41						
			139/6	0 00 10						

[फा. सं. एल-14014/5/11-जी.पी. (भाग-III)]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

[फा. सं. एल-14014/5/11-जी.पी. (भाग-III)]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2012

S.O. 74(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 785(E) dated 25th April, 2011; issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Kochi - Kootanad - Mangalore - Bangaluru pipeline project in the State of Kerala by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil/Taluka	Village	Survey No.	Area to be acquired for ROU		
				Area		
				Hect. Sq. Mtrs.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Palakkad	Ottappalam	Chalissery (Chalissen)	275/1	0	06	51
			275/3	0	02	03
			275/2	0	10	80
			311	0	28	32
			310/1	0	17	40
			309/4	0	11	14
			309/3	0	00	62

309/1	0	00	01
307/1	0	06	95
308/2	0	15	48
308/3	0	00	04
297/9	0	00	25
308/4	0	15	12
297/4	0	00	84
298/3	0	01	23
298/5	0	05	51
298/4	0	11	18
298/2	0	07	74
298/1	0	15	98
294/3	0	04	26
294/2A	0	01	67
294/2B	0	15	26
294/1	0	17	52
295/7	0	02	40
293/2A	0	01	21
286	0	01	70
288	0	01	25
287/2B	0	07	07
287/2A	0	13	74
241	0	85	70
242/1B	0	09	87
242/1A	0	13	02
243/2B	0	10	77
243/2A	0	05	84
243/3A	0	00	04
93	0	78	86
92/10	0	16	67
92/9	0	13	65
84	0	07	05
89/7	0	02	17
89/5	0	01	24
89/6	0	11	19
89/2	0	13	42
89/3	0	00	21
88/4	0	04	32
88/3	0	11	17
87	0	00	18
69/5	0	01	76
69/4	0	02	60
69/3	0	00	88
69P	0	15	83
64/4	0	01	52
64/5	0	04	28
64/3	0	20	93
64/3A	0	00	52

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			64/2	0 01 47		Nagalassery	11/4	0 20 35	
			61	0 11 92			12/1	0 07 58	
			60/1	0 12 68			12/3A	0 18 55	
			60/3	0 10 51			12/3B	0 08 65	
			39/3	0 20 13			13/1A	0 07 31	
			39/2	0 14 00			13/1B	0 00 51	
			40/1	0 05 40			13/2	0 00 59	
			37/2	0 15 84			13/4A	0 00 42	
			37/1	0 04 39			13/4B	0 00 29	
			37/3	0 00 99			10/2A	0 01 00	
			36/1	0 14 40			10/2B	0 01 74	
			36/2	0 10 23			17/1	0 01 06	
			12/1	0 02 33			17/2A	0 03 73	
			12/2	0 19 88			17/2B	0 13 72	
			11/2	0 34 81			18	0 02 65	
			11/1	0 04 71			7/1B	0 04 76	
			7/7	0 00 76			7/1A	0 00 06	
			7/5	0 07 44			7/2B	0 13 10	
			7/4	0 03 27			8/4B2	0 08 28	
			7/3	0 11 10			8/4A2	0 17 62	
			6/4	0 08 19			3/8	0 01 68	
			6/3	0 03 09			3/7	0 00 02	
			5	0 03 62			4/3	0 08 01	
			4/3A	0 01 36			4/2A	0 27 36	
			4/3C	0 08 76			2/2B	0 16 67	
			4/3B	0 07 53			270/1A1	0 01 51	
			4/4	0 01 51			1/2B	0 30 54	
			1/2	0 03 86			1/2A	0 02 40	
			1/1A	0 04 18			275/4B	0 15 45	
			Total	8 05 28			275/5B	0 07 22	
	Chalissery	167/1A	0 25 59				275/5B	0 00 01	
	(Kavukkod)	167/2	0 00 95				278/5B	0 07 27	
		166/3B	0 05 00				279/1	0 22 12	
		166/4	0 01 54				279/3	0 00 30	
		166/3A	0 03 60				279/4	0 00 01	
		166/2B	0 05 09				255/1A	0 01 13	
		166/2A	0 01 76				255/4	0 13 31	
		166/1	0 13 97				255/3	0 06 21	
		79/10	0 10 00				255/6	0 07 23	
		52	0 16 02				254/4	0 07 72	
		53/3	0 04 79				254/5	0 07 93	
		53/2	0 03 68				254/2	0 02 75	
		51/3	0 06 79				254/1	0 01 24	
		51/2	0 05 31				253/1	0 09 24	
		51/1	0 04 76				253/2	0 11 22	
		Total	1 08 85				253/4	0 00 86	
							253/3	0 13 15	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Nagalassery	253/5	0	01	10			Nagalassery	388/2	0	09	42	
		287/1	0	07	24				388/1	0	07	17	
		287/3	0	11	12				Total	8	54	19	
		288/2	0	27	59			Pattithara	96/5	0	06	32	
		248	0	00	15			(Mala)	96/4	0	14	69	
		288/4	0	04	78				98/3	0	10	88	
		288/3	0	17	31				98/1	0	14	89	
		291P	0	01	49				102/3	0	04	65	
		290/1	0	00	72				102/2	0	22	84	
		290/2	0	32	38				101/2	0	02	52	
		292/1	0	16	93				101/4	0	03	61	
		331/1	0	42	38				101/3	0	11	37	
		331/2A	0	00	57				101/5	0	04	58	
		331/2B	0	00	02				100/5	0	03	04	
		332/1	0	00	01				100/6	0	04	41	
		327/3	0	04	37				104/5	0	03	13	
		327/4	0	00	01				104/1	0	05	96	
		336/1	0	29	92				104/3	0	21	48	
		336/2B	0	04	80				352/1	0	12	48	
		336/2A	0	24	02				107/6	0	00	55	
		325/4	0	00	71				107/5	0	01	81	
		325/5	0	08	35				107/4	0	10	87	
		341/1	0	08	27				107/2	0	00	61	
		341/4	0	14	27				107/3	0	06	34	
		341/2	0	11	77				351/2	0	04	08	
		342/2	0	07	84				351/3	0	06	89	
		342/3	0	09	87				351/4	0	07	88	
		340/1	0	00	57				351/6	0	10	45	
		349/1	0	19	41				350/1	0	22	15	
		348/2	0	30	85				270/7	0	07	06	
		350/1	0	05	88				270/9	0	08	47	
		415	0	00	85				270/8	0	03	92	
		414/1	0	00	21				271/2	0	07	83	
		414/2	0	01	91				271/1	0	18	50	
		414/3	0	16	75				273/3	0	17	68	
		410/1A	0	09	78				273/1	0	03	83	
		411/2	0	11	46				273/2	0	09	80	
		410/1B	0	09	60				273/5	0	00	06	
		405/1	0	16	88				273/6	0	05	43	
		405/3	0	20	56				275/1A	0	05	08	
		408/7	0	12	56				275/1B	0	15	80	
		408/6	0	00	24				275/4	0	02	28	
		408/9	0	11	01				276/7	0	01	80	
		387/5	0	05	67				276/8	0	09	46	
		387/6	0	02	13				275/5	0	01	07	
		387/4	0	18	76				275/5	0	00	38	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pattithara	277/1	0	15	38			Pattithara	413/3	0	27	70	
	(Maia)	277/2	0	00	80			(Maia)	413/2	0	13	51	
		277/3	0	03	18				413/5	0	04	72	
		336/1	0	00	88				416/1	0	05	52	
		336/3	0	11	57				416/2	0	10	39	
		336/4	0	15	52				416/3	0	01	51	
		335/2	0	11	41				416/4	0	15	54	
		336/5	0	00	01				421/1	0	09	01	
		336/6	0	12	55				421/3	0	06	18	
		334/6	0	17	01				421/2	0	03	62	
		339/2A	0	06	12				421/4	0	16	84	
		333/1	0	21	83				422/2	0	04	11	
		333/2	0	05	16				422/1	0	04	13	
		333/3	0	05	66				422/3	0	12	08	
		329/2B	0	11	47				422/5	0	02	07	
		329/3	0	17	55				423/8	0	00	06	
		329/4	0	00	70				Total	8	75	60	
		330/1	0	00	79			Thirumittacode	153	0	06	22	
		330/2	0	11	76				154	0	08	49	
		330/3	0	03	20				158	0	00	05	
		328/2	0	00	50				159	0	02	81	
		326/1A	0	12	60				164	0	02	52	
		326/1B	0	10	90				165	0	06	09	
		325/3	0	14	62				161	0	00	01	
		325/7	0	09	17				167	0	08	94	
		325/8	0	05	91				1610	0	03	22	
		324/9	0	19	42				168	0	06	36	
		403/4	0	01	97				169	0	04	14	
		403/3	0	12	50				184	0	01	41	
		403/2	0	07	80				201	0	06	59	
		403/1	0	01	37				202	0	08	38	
		323/5	0	09	30				203	0	08	36	
		323/4	0	20	61				204	0	15	62	
		322/4	0	04	89				211	0	03	79	
		322/3	0	06	33				212	0	08	84	
		322/2	0	13	85				213	0	05	18	
		322/1	0	01	83				218	0	00	48	
		317/2	0	18	09				214	0	05	59	
		316/5	0	13	40				215	0	07	16	
		409/2	0	12	38				221	0	01	58	
		316/4	0	00	04				222	0	04	45	
		409/1	0	23	75				223A	0	11	03	
		409/4	0	01	74				223B	0	00	35	
		408/1	0	03	91				224	0	10	36	
		413/4	0	01	21				225	0	04	49	
		413/1	0	01	04				226	0	01	84	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Thirumittacode	22/7	0	05	65			Thirumittacode	60	0	36	38	
		23/4	0	05	14				59/9A	0	00	03	
		23/5	0	07	32				59/9B	0	07	63	
		23/3	0	00	83				59/5	0	13	24	
		23/7	0	01	11				59/4	0	03	06	
		23/8	0	03	14				59/2	0	06	65	
		23/1	0	03	98				58/9	0	04	93	
		23/10	0	01	38				146/1	0	02	63	
		23/9	0	04	14				146/9	0	10	29	
		41/2	0	04	10				146/7	0	00	65	
		41/4	0	02	04				146/6	0	09	64	
		41/3	0	00	33				145/9	0	01	58	
		41/7	0	00	36				145/8	0	03	62	
		41/8	0	00	42				145/7	0	00	10	
		41/9	0	00	59				145/2	0	02	95	
		41/6	0	11	20				145/3	0	16	62	
		42/3	0	00	28				145/5	0	09	53	
		42/2	0	02	22				144/1	0	16	57	
		42/5	0	19	66				144/3	0	02	60	
		42/6	0	11	83				144/4	0	05	11	
		42/7	0	06	46				144/5	0	10	73	
		42/8	0	05	75				144/8	0	00	57	
		44/1	0	05	28				144/9	0	04	25	
		44/2	0	04	41				144/12	0	08	24	
		44/3	0	11	06				143/3	0	03	03	
		44/4	0	03	17				143/2	0	16	35	
		44/5	0	04	67				143/6	0	00	06	
		62/4	0	04	49				143/8	0	01	27	
		62/3	0	04	17				142/8	0	03	63	
		62/5	0	00	85				142/9	0	11	04	
		62/8	0	02	48				142/10	0	24	97	
		62/7	0	02	24				140/4	0	05	57	
		62/9	0	04	00				140/5	0	12	42	
		62/10	0	00	14				140/6	0	09	54	
		62/12	0	05	26				140/10	0	06	43	
		62/13	0	02	62				138/2	0	01	37	
		62/15	0	08	30				138/1	0	05	76	
		62/16	0	05	79				138/3	0	10	05	
		63/8	0	01	98				138/4	0	11	35	
		63/9	0	00	27				139/4	0	02	68	
		63/7	0	02	87				139/3	0	15	41	
		63/6	0	01	80				139/6	0	00	10	
		63/4	0	01	91				152	0	03	41	
		63/3	0	01	94				153/4	0	06	83	
		61/4	0	08	51				153/5	0	00	43	
		61/5	0	16	24								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Thirumittacode	154/1	0	00	52			Thirumittacode	194/8B	0	05	57	
		153/6	0	16	63				194/9B	0	17	49	
		154/4	0	07	41				Total	8	44	47	
		154/3	0	06	57			Thrithala	212/3A	0	05	03	
		155/2	0	03	30			(Melathur)	212/3B	0	13	69	
		154/2A	0	11	86				228/1B	0	01	48	
		191/6B	0	03	91				228/1A	0	16	04	
		191/7	0	24	16				229/1A	0	05	49	
		191/10A	0	03	04				229/3A	0	05	25	
		192/2A	0	02	61				229/4A	0	02	75	
		192/2B	0	01	80				229/7A	0	09	67	
		192/2C	0	16	38				235/2A	0	11	97	
		192/1	0	01	98				235/3A	0	11	95	
		192/4	0	13	13				236/1A	0	20	87	
		193/3A	0	04	07				236/2	0	10	14	
		193/3B	0	02	38				233/1	0	00	85	
		193/4A	0	10	86				237/6	0	00	25	
		193/1B	0	01	27				Total	1	15	43	
		193/6A	0	00	42								
		193/7B	0	02	51								
		194/8A	0	00	57								

[F. No. L-14014/5/11-G.P. (Part-III)]

A. GOSWAMI, Under Secy.